

प्रेस नोट

थाना हजारा पुलिस द्वारा थाना नानकमत्ता जनपद ऊधमसिंहनगर(उत्तराखण्ड) पुलिस टीम से लूटी हुयी AK-47 सहित वांछित/ 25000 व 5000 रु के इनामिया अभियुक्त को पुलिस मुठभेड में किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद पीलीभीत, श्री किरीट सिंह राठौर के निर्देशन पर अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के विरुद्ध अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, पीलीभीत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी महोदय पूरनपुर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना हजारा के मार्ग दर्शन में थाना हजारा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 07.05.2021 की प्रातः में मुखविर की सूचना पर शारदा नदी घाट के पार घने जंगल में पुलिस मुठभेड़ में शातिर अभियुक्त **जसवन्त उर्फ जस्सी पुत्र सलसराय उर्फ छीला सिंह नि0 ग्राम राघवपुरी थाना हजारा जनपद पीलीभीत** को गिरफ्तार किया गया जो थाना नानकमत्ता जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड से सम्बन्धित मु0अ0सं0 126/2018 धारा 324/452/302/506 भादवि0 का वांछित तथा 5000 रूपयें का पुरस्कार घोषित अपराधी है। जिसके द्वारा दिनांक 24.04.2021 को थाना माधौटाण्डा जनपद पीलीभीत क्षेत्रान्तर्गत स्थित जंगल में पुलिस मुठभेड़ के दौरान अपने पुत्रों कृष्णा सिंह व करमजीत सिंह उर्फ कन्नी की सहयोग से थाना नानकमत्ता जनपद ऊधमसिंहनगर(उत्तराखण्ड) पुलिस टीम से सरकारी रायफल AK-47 लूटी ली गई थी जिसके फलस्वरूप थाना माधौटाण्डा पर मु0अ0सं0 144/2021 धारा 353/307/394 भादवि0 पंजीकृत है तथा 25,000 रूपयें का इनामी वांछित अभियुक्त था। उक्त वांछित अभियुक्त को आज दिनांक 07.05.2021 को थाना हजारा पुलिस टीम द्वारा मुठभेड में गिरफ्तार किया जा चुका है। तथा लूटी हुई AK-47 रायफल थाना हजारा पुलिस द्वारा बरामद की जा चुकी है।

गिरफ्तार अभियुक्त

जसवन्त उर्फ जस्सी पुत्र सलसराय उर्फ छीला सिंह नि0 ग्राम राघवपुरी थाना हजारा जनपद पीलीभीत उम्र करीब 45 वर्ष

अभियुक्त से बरामदगी

01- लूटी गई एक अदद सरकारी रायफल AK- 47

02- एक अदद देशी तमन्चा नाजायज 315 बोर मय 03 अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस नाल में फसा

अपराधिक इतिहास

01.मु0अ0सं0 07/2007 धारा 307/506/302 भादवि0 थाना हजारा जनपद पीलीभीत

02.मु0अ0सं0 18/2007 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हजारा जनपद पीलीभीत

03.मु0अ0सं0 126/2018 धारा 324/452/302/506 भादवि0 थाना नानकमत्ता जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड

04.मु0अ0सं0 144/2021 धारा 307/394/353 भादवि0 थाना माधौटाण्डा जनपद पीलीभीत

05.मु0अ0सं0 68//2021 धारा 307 भादवि0 (पुलिस मुठभेड़) थाना हजारा जनपद पीलीभीत

06.मु0अ0सं0 69/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हजारा जनपद पीलीभीत

घोषित ईनाम:-

01- 25000/- रूपयें पुरस्कार थाना माधौटण्डा जनपद पीलीभीत उत्तरप्रदेश

02- 5000/- रूपये पुरस्कार थाना नानकमत्ता जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

01.उ0नि0 श्री राजवीर सिंह परमार

02.उ0नि0 श्री संजय कुमार

03.उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह

04.हे0का0 102 रेहान अहमद

05.का0 1385 अरूण कुमार

06.का0 1323 रामू तोमर

07.का0 207 गौरव बाना

08.का0 1530 धर्मेन्द्र सिंह

09.का0 1594 सोहित कुमार

10.का0 31 नागेन्द्र कुमार

11.का0 1401 रवि कुमार



सोशल मीडिया सैल जनपद पीलभीता